


Q.1 परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए - (गद्य) 8

1 A1) अनुच्छेद पढ़कर दी गई कृतियाँ पूर्ण कीजिए :- 2



हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएँगे, जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि हैं, श्री लपकानंद जी। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अकसर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ, जब भी मिलेंगे दस-बीस कविताएँ पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। आते ही कहने लगे- "मैं तो पिछले चार-पाँच दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ। कसम से, मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रातभर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई...।" यह कह झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने-

"आसाम की राजधानी है शिलाँग  
मेरे दोस्त की टूट गई है टाँग  
मोटरवाले, तेरी ही साइड थी राँग।"

कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे, मानो उनकी एक आँख पूछ रही हो- 'कहो, कविता कैसी रही?' और दूसरी आँख पूछ रही हो- 'बोल, बेटा! अब भी मुझसे भागेगा?' मैंने उन्हें जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएँ सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से उन्हें विदा किया।

अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर! अगर तुझे मेरी दूसरी टाँग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़ मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले।

A2) i) अनुच्छेद पढ़कर दी गई कृतियाँ पूर्ण कीजिए :- 1



ii) निम्नलिखित वाक्य सत्य या असत्य हैं पहचानकर लिखिए। 1

- कवि ने कविता सुनाई।
- हँसने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई दी।

A3) i) शुद्ध वाक्य लिखिए। 1

मेरा दोस्त का टूट गया है टाँग।

ii) निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। 1

- रात - .....
- दिन - .....

A4) स्वमत :-

परेशान हूँ इन मेहमानों से | इस विषय पर छ-सात पंक्तियों में अपने विचार व्यक्त कीजिए |

2

Q.2 परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए - (पद्य)

6

1 A1) i) उत्तर लिखिए :-

1

धरा पर किन की धूम व विजय रही ?

ii) अनुच्छेद पढ़कर दी गई कृतियाँ पूर्ण कीजिए :-

1



हिमालय के आँगन में उसे, किरणों का दे उपहार उषा ने हँस अभिनंदन किया, और पहनाया हीरक हार ।
जगे हम, लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संसृति हो उठी अशोक ।
विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत सप्तस्वर सप्तसिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत । .....
विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर-घर घूम ।
'गोरी' को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि ।

A2) i) निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक संज्ञा रूप लिखिए।

1

i. सृष्टि × .....

ii. दया × .....

ii) निम्नलिखित शब्दों के विशेषण रूप लिखिए।

1

i. विश्व - .....

ii. लोक - .....

A3) स्वमत :-

2

पद्यांश की प्रथम चार पंक्तियों का भावार्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए।

Q.3 परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए - (पद्य पूरक पठन)

4

1 A1) वाक्य पूर्ण कीजिए :-

2

1) आँखे बरसी .....

2) मन पावन हो गया .....

भीतरी कुंठा  
आँखों के द्वार से  
आई बाहर ।

खारे जल से  
धुल गए विषाद  
मन पावन ।

मृत्यु को जीना  
जीवन विष पीना

है जिजीविषा ।

मन की पीड़ा  
छाई बन बादल  
बरसी आँखें ।

**A2) स्वमत :-**

2

उपर्युक्त पंक्तियों में छिपे केंद्रीय भाव को स्पष्ट कीजिए ।

**Q.4 निम्नलिखित अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए**

1

1 के अलावा

**Q.5 सहायक क्रियाएँ पहचानकर लिखिए**

1

1 काकी ने लाड़ली को गोद में बिठा लिया।

**Q.6 कारक भेद लिखिए**

1

1 राम ने रावण को तीर से मारा ।

**Q.7 मुहावरे का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए**

1

1 गोद में खिलाना -

**Q.8 वाक्य में यथास्थान विरामचिन्हों का प्रयोग कीजिये**

1

1 सभी लोग सकते में आ गए

**Q.9 पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए (औपचारिक)**

5

1

स्वास्थ्य अधिकारी पुणे, महानगरपालिका / दूषित जल के कारण उत्पन्न बीमारियों की रोकथाम हेतु / 25/104 निर्मलनगर,  
पुणे से सुरेश / सुधा दुबे पत्र लिखता / लिखता है ।

**Q.10 निम्नलिखित शब्द का प्रयोग अपने वाक्य में कीजिए**

1

1 खुदारी

**Q.11 निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त अव्यय ढूँढकर उसका भेद लिखिए**

1

1 एक के पति हमार मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव हो ।

YOUR FLIGHT , OUR WINGS .